

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ने परिवर्तनशील सेंटर फॉर इनोवेशन के लिए आर्किटेक्ट के तौर पर डायमंड शमिट का चयन किया

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (27 जुलाई, 2021) – अपने सेंटर फॉर इनोवेशन (सी.एफ.आई.) (Centre for Innovation) (CFI) के लिए आर्किटेक्ट का चयन करने के साथ, सिटी ने डाउनटाउन ब्रैम्पटन को दुबारा प्रभावशाली बनाने और इसकी आर्थिक क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए काम जारी रखा है।

सिटी ने सी.एफ.आई. (CFI) प्रोजेक्ट का डिज़ाइन [डायमंड शमिट \(Diamond Schmitt\)](#) को दिया है। यह कॅनेडियन आर्किटेक्ट्स हैं, जो पूरी दुनिया में सांस्कृतिक, अकैडमिक और नागरिक स्थानों के लिए नए डिज़ाइन प्रदान करते हैं। डायमंड शमिट (Diamond Schmitt) के कुछ प्रसिद्ध प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं, सीनेट ऑफ कॅनेडा बिल्डिंग (Senate of Canada Building); वैनकूवर (Vancouver) में एमिली कार यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन (Emily Carr University of Art and Design); सेंट पीटर्सबर्ग, रूस (St. Petersburg, Russia) में मेरिंस्की टू थिएटर (Mariinsky II Theatre); ओटावा (Ottawa) में नैशनल आर्ट्स सेंटर (National Arts Centre); टोरोंटो (Toronto) का फोर सीजन्स सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (Four Seasons Centre for the Performing Arts) और द ग्लोब एंड मेल सेंटर (The Globe and Mail Centre); वाटरलू (Waterloo) में विल्फ्रिड लौरियर यूनिवर्सिटी (Wilfrid Laurier University) में लज़ैरीडिस हॉल (Lazaridis Hall) और ब्रैम्पटन का अपना, पील मेमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness)। डायमंड शमिट, नई ओटावा पब्लिक लाइब्रेरी (Ottawa Public Library) और लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स कॅनेडा (ओ.पी.एल.-एल.ए.सी.) जॉयन्ट फैसिलिटी (Library and Archives Canada (OPL-LAC) Joint Facility) को भी डिज़ाइन कर रही है।

शहरी कम्युनिटी से प्रेरित डिज़ाइनों, ऐतिहासिक संदर्भ और रचनात्मक जगह बनाने पर ध्यान केंद्रित करने और खास उद्देश्य के साथ निर्माण करने, बेहद स्थिर कम कार्बन और कम ऊर्जा वाली बिल्डिंगों की प्रतिबद्धता के साथ डायमंड शमिट, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में परिवर्तनशील जगह प्रदान करने के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है।

सी.एफ.आई., ब्रैम्पटन के डाउनटाउन के बीच में स्थित होगा और यह शहर में, अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University), रायरसन यूनिवर्सिटी (Ryerson University) और यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ-हम्बर (University of Guelph-Humber) जैसे मौजूदा और भविष्य के पोस्ट सेकंडरी इंस्टीट्यूशन्स की मौजूदगी की हिमायत करेगा। यह पोस्ट सेकंडरी इंस्टीट्यूशन्स को, लोकल कारोबारों और शुरुआती उद्यमों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ब्रैम्पटन के कार्यबल को भविष्य की कुशल वाली नौकरियों के साथ जुड़ने में मदद करेगा। सी.एफ.आई. शहर के डाउनटाउन के केंद्र में शानदार वस्तुएं प्रदान करेगा और फैसिलिटी का डिज़ाइन, बिल्डिंग के अंदर और इसके स्ट्रीटस्केप और शहरी डिज़ाइन, दोनों में सकारात्मक और भागीदारी वाला उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा।

ब्रैम्पटन के विकासशील इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) के हिस्से के तौर पर, सेंटर फॉर इनोवेशन एक सहयोगात्मक जगह होगी, जो डिजिटल रचना और प्रोग्रामिंग, परफॉर्मेंस तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग, भिन्न योग्यताओं तथा सांस्कृतिक दिनों के लिए सहायक तकनीकों हेतु अवसर प्रदान करने वाली एक नई सेंट्रल लाइब्रेरी पेश करेगी। यह लाइब्रेरी, निवासियों और कम्युनिटी साझेदारों को शामिल करने के लिए लचीले ऑफिस स्थान प्रदान करेगी।

सी.एफ.आई., शहर में डाउनटाउन ब्रैम्पटन गो (Downtown Brampton GO) स्टेशन से आने-जाने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए एक गेटवे और लैंडमार्क होगा। यह ब्रैम्पटन के सभी निवासियों के साथ-साथ, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए काम करेगा और एलिमेंटरी, सेकंडरी तथा पोस्ट सेकंडरी विद्यार्थियों को एक-दूसरे के साथ और निवासियों, कारोबारी कम्युनिटी और इंडस्ट्री के साथ, ऐसी सहयोगात्मक जगह में शामिल होने, परिवर्तन लाने तथा सहयोग के अवसर प्रदान करेगा, जो अनुभव संबंधी प्रशिक्षण पर जोर देती हो।

इसका निर्माण, 2023 में शुरू होने का अनुमान है।

कोविड-19 (COVID-19) के दौरान, सिटी ने डाउनटाउन निवेश को बढ़ाने और ब्रैम्पटन के केंद्र में नए विकास को पुनः प्रभावशाली बनाने और बढ़ाने के लिए काम जारी रखा है। टर्म ऑफ काउंसिल प्राइरिटीज (Term of Council Priorities) पर आधारित, जारी परिवर्तनशील पहलकदमियों, संपूर्ण कम्युनिटीज बनाने, आर्थिक क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने और ब्रैम्पटन को इनोवेशन कॉरिडोर (Innovation Corridor) पर बेजोड़ पोजीशन पर लाने में मदद करेंगी।

सी.एफ.आई. के बारे में अधिक जानने के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।

### संक्षिप्त तथ्य

- मार्च 2021 में, सिटी ने रायरसन यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंस्टीट्यूट सहित, ब्रैम्पटन में और पोस्ट सेकंडरी अवसरों के विस्तार की, प्रांत की घोषणा का स्वागत किया।
- 7 जुलाई की अपनी मीटिंग में, काउंसिल ने भविष्य के, ब्रैम्पटन स्कूल ऑफ मेडिसिन (Brampton School of Medicine) के लिए फंड देने हेतु, रायरसन यूनिवर्सिटी को 1 मिलियन डॉलर की प्लानिंग ग्रांट की मंजूरी दी।
- 16 जून, 2021 को, सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ-हम्बर ने अकैडमिक इंस्टीट्यूशन को, सेंटर फॉर इनोवेशन में एंकर टेनेंट के तौर पर ब्रैम्पटन में लाने के अपने उद्देश्य की पुष्टि की।
- सिटी, डाउनटाउन ब्रैम्पटन के केंद्र में एक इनोवेशन और उद्यम ईकोसिस्टम बना रही है। इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट पूरे रीजन के शुरुआती-उद्यमियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यूकमर्स की सहायता के लक्ष्य के साथ इनोवेटिव प्रतिभा पेश करेगा। इससे कंपनियों को शुरुआती-उद्यम, स्केल-अप, छोटे और मध्यम-आकार के एंटरप्राइजेस और बड़े कार्पोरेट्स सहित हर पड़ाव में संसाधन मिल पाएंगे। इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में 21 मिलियन डॉलर से अधिक राशि का निवेश किया जा रहा है, जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी (Economic Recovery Strategy) का मुख्य हिस्सा है।

### हवाले

“ब्रैम्पटन में एक रोमांचक परिवर्तन हो रहा है और हमारा सेंटर फॉर इनोवेशन, हमारे शहर को मुख्य एजुकेशन और इनोवेशन केंद्र में विकसित करने में मदद करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैनेडा की सबसे बड़ी कंपनी - डायमंड शमिट का चयन करने के साथ – हम डाउनटाउन ब्रैम्पटन की क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने और हमारे निवासियों को यहीं शहर में ही उच्च किस्म की शिक्षा और कौशल संबंधी अवसर प्रदान करने के एक कदम और पास आ गए हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का लगातार विकास, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी में मुख्य कार्य है और सेंटर फॉर इनोवेशन, क्षेत्र में भविष्य की वृद्धि को आगे बढ़ाने और हमारी बहाली में सहायता करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। मुझे खुशी है कि सिटी ने एक आर्किटेक्ट का चयन किया है और मैं उन फायदों को देखने के लिए उत्साहित हूँ, जो सेंटर फॉर इनोवेशन हमारे डाउनटाउन में लेकर आएगा।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी, हमारे डाउनटाउन को दुबारा प्रभावशाली बनाने और संपूर्ण कम्युनिटीज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हमारे निवासी रह, सीख, काम कर और खेल पाएं। हमारे परिवर्तनशील सेंटर फॉर इनोवेशन के लिए आर्किटेक्ट के तौर पर, डायमंड एंड शमिट आर्किटेक्ट्स इंक. का चयन करने की इस घोषणा के साथ, हम अधिक मजबूत और अधिक प्रभावशाली ब्रैम्पटन बनाने के लिए काम कर रहे हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में हमारी टीम, हमारे डाउनटाउन की क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने और विद्यार्थियों तथा कारोबारियों की वृद्धि के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कैनेडा के इनोवेशन कॉरिडोर पर हमारी मुख्य जगह के साथ सिटी, हमारी संपूर्ण कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए, हमारे शहर को शिक्षा और इनोवेशन केंद्र में विकसित करने के लिए लगातार नेतृत्व कर रही है। हम सेंटर फॉर इनोवेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ते हुए और हमारे निवासियों के लिए नतीजे प्राप्त करना जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डायमंड शमिट को सेंटर फॉर इनोवेशन के डिजाइन में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ सहयोग करने पर गर्व है, जो नागरिकता दृष्टिकोण की बेहद शानदार पहलकदमी है।”

- डॉन शमिट (Don Schmitt), प्रिंसिपल, डायमंड शमिट

“हम इस परिवर्तनशील प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर उत्साहित हैं। सेंटर फॉर इनोवेशन हमारी टीम के लिए, इनोवेशन, लचीलेपन और स्थिरता के लिए नई योजना बनाने का बेहद शानदार अवसर प्रदान करता है।”

- माइक साबो (Mike Szabo), प्रिंसिपल, डायमंड शमिट

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)